

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त 2015—श्रावण 31, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-661.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम उज्जैन, जिला उज्जैन के माह अगस्त 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	नगरपालिक निगम का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)	(7)
1	नगरपालिक निगम	महापौर	—	—	मीना विजय जोनवाल	भारतीय जनता पार्टी
2	उज्जैन, जिला उज्जैन.	पार्षद	1	एक	संजय कोरट	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	विनिता शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	गुलनाज नासिर खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	राजेश सेठी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	निशा बुद्धसिंह सेंगर	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सारिका रवि वाघेला	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	प्रमिला मीणा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	निर्मला गोपाल कन्नौदिया	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सपना जितेन्द्र सांखला	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	प्रेमलता राधेश्याम गेहलोत	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अमजद खान	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	पार्षद		12	बारह	श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14	पार्षद		13	तेरह	जफर बानो	भारतीय जनता पार्टी
15	पार्षद		14	चौदह	मोहम्मद सलीम कबाडी	निर्दलीय
16	पार्षद		15	पन्द्रह	कलावती यादव	भारतीय जनता पार्टी
17	पार्षद		16	सोलह	श्रीमती करुणा जैन	भारतीय जनता पार्टी
18	पार्षद		17	सत्रह	मांगीलाल कडेल (मांगु पहलवान)	भारतीय जनता पार्टी
19	पार्षद		18	अठारह	शैफाली राकेश राव	भारतीय जनता पार्टी
20	पार्षद		19	उन्नीस	आजाद यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21	पार्षद		20	बीस	ज्योति संजय राव	भारतीय जनता पार्टी
22	पार्षद		21	इक्कीस	श्रीमती अनिताबाई सुरेश राठोर	भारतीय जनता पार्टी
23	पार्षद		22	बाईस	सोनू भाई गेहलोत	भारतीय जनता पार्टी
24	पार्षद		23	तेईस	मीना नारायण बाथवी	भारतीय जनता पार्टी
25	पार्षद		24	चौबीस	श्रीमती आरती जीवन गुरू तिवारी.	भारतीय जनता पार्टी
26	पार्षद		25	पच्चीस	डॉ. योगेश्वरी राठौर	भारतीय जनता पार्टी
27	पार्षद		26	छब्बीस	सत्यनारायण चौहान	भारतीय जनता पार्टी
28	पार्षद		27	सत्ताईस	रहीम सुल्तान शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29	पार्षद		28	अट्ठाईस	रेखा बेन गेहलोत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
30	पार्षद		29	उन्तीस	शैलेन्द्र हिरालाल यादव (राजू पहलवान).	निर्दलीय
31	पार्षद		30	तीस	मोहम्मद फारूक हुसैन बडे राजू भाई.	भारतीय जनता पार्टी
32	पार्षद		31	इकत्तीस	जफर एहमद सिद्दीकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
33	पार्षद		32	बत्तीस	मुजफ्फर हुसैन	भारतीय जनता पार्टी
34	पार्षद		33	तेत्तीस	लीलाबाई वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
35	पार्षद		34	चौत्तीस	गीता राजेश चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
36	पार्षद		35	पैंतीस	श्रीमती नीलू रानी खत्री	भारतीय जनता पार्टी
37	पार्षद		36	छत्तीस	श्रीमति दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी.	भारतीय जनता पार्टी
38	पार्षद		37	सैंतीस	प्रेमलता बैण्डवाल	भारतीय जनता पार्टी
39	पार्षद		38	अड़तीस	श्रीमती राजेश्री राजेन्द्र जोशी	भारतीय जनता पार्टी
40	पार्षद		39	उन्चालीस	श्रीमति मीना जितेन्द्र तिलकर नाना भैया.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
41	पार्षद		40	चालीस	आत्माराम मालवीय पिता गंगाराम.	निर्दलीय
42	पार्षद		41	इकतालीस	ताराबाई मालवीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
43	पार्षद		42	बयालीस	राधेश्याम वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
44	पार्षद		43	तैंतालीस	राजकमल मदनलाल ललावत	भारतीय जनता पार्टी
45	पार्षद		44	चौवालीस	बुद्धिप्रकाश सोनी	भारतीय जनता पार्टी
46	पार्षद		45	पैंतालीस	कुवाल हेमलता राजेन्द्र (गब्बर भैया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
47	पार्षद		46	छियालीस	रिंकु बैलानी w/o दीपक बैलानी.	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48	नगरपालिका निगम,	पार्षद	47	सैतालीस	विजयसिंह दरबार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
49	उज्जैन, जिला उज्जैन	पार्षद	48	अड़तालीस	संतोष बाबूलाल यादव	भारतीय जनता पार्टी
50		पार्षद	49	उनन्चास	संतोष व्यास	निर्दलीय
51		पार्षद	50	पचास	विकास रमेश चन्द्र मालवीय	निर्दलीय
52		पार्षद	51	इक्यावन	शैलेन्द्र वीनू कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
53		पार्षद	52	बावन	राजेन्द्र वशिष्ठ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
54		पार्षद	53	तिरेपन	सुनिल बोरासिया	भारतीय जनता पार्टी
55		पार्षद	54	चौवन	हिम्मतसिंह देवडा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(दीपक सक्सेना)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-662.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् विदिशा, जिला विदिशा के माह अगस्त 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र. (1)	नगरपालिका परिषद का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु (4)		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			अंकों में	शब्दों में		
1	नगरपालिका परिषद,	अध्यक्ष	—	—	मुकेश टंडन	भारतीय जनता पार्टी
2	विदिशा, जिला विदिशा.	पार्षद	1	एक	कमल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	ममता दिनेश कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	संदीप टी. सी. गोहर	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	संगीता नीरज पाल	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमति रामवती संतोष कुमार (पेंटर)	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	कृष्ण कुमार गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	नवनीत कुशवाह “गुड्डा भैया”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती सुनीता निरपतसिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सुरेश मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	यतीन्द्र बहुगुणा	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	राजेन्द्र सोनी	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	पूजा वासुदेव धनवानी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	अरुणा रैकवार विजयकांत	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	नगरपालिका परिषद् विदिशा, जिला विदिशा.	पार्षद	14	चौदह	गिरजेश यादव (गिरीश)	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अनीता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	राजेश नेमा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	सरला घनश्याम माहेश्वरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19		पार्षद	18	अठठारह	पप्पी मनोज खीची	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	श्री राजेश राय	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	प्रियंका कमलेश अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	सुमित कुमार जैन	निर्दलीय
23		पार्षद	22	बाईस	डालचंद नाथूराम अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24		पार्षद	23	तेईस	जमना कुशवाह	निर्दलीय
25		पार्षद	24	चौबीस	पंकज महेशचन्द्र पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	सुलेखा अनिल यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
27		पार्षद	26	छब्बीस	तृप्ति अशीष सिंह भदौरिया	निर्दलीय
28		पार्षद	27	सत्ताईस	श्रीमति भावना अविनाश सनेहा	निर्दलीय
29		पार्षद	28	अठाईस	रूचि डॉ. पीयूष सक्सेना	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उनतीस	श्रीमति रोशनी जितेन्द्र रोहित	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	श्रीमती मालती देवी यादव	भारतीय जनता पार्टी
32		पार्षद	31	इक्तीस	श्रीमति राधा पंकज विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
33		पार्षद	32	बत्तीस	संजीव मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तैंतीस	श्रीमती अरूणा डॉ. पी. सी. माँझी	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौतीस	ब्रजेन्द्र सिंह वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
36		पार्षद	35	पैंतीस	नमिता धर्मेन्द्र लोधी	भारतीय जनता पार्टी
37		पार्षद	36	छत्तीस	मोहित चौबे पिता-डॉ. ओम प्रकाश चौबे	भारतीय जनता पार्टी
38		पार्षद	37	सैंतीस	श्रीमति कृष्णा शक्तिसिंह जादौन	भारतीय जनता पार्टी
39		पार्षद	38	अड़तीस	शैलेन्द्र सरबैया	भारतीय जनता पार्टी
40		पार्षद	39	उनतालीस	रमा बाई पत्नि गजेन्द्र सिंह रघुवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(दीपक सक्सेना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-663.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद धुवारा, जिला छतरपुर के माह अगस्त 2015 में कराये

गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं:—

क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, धुवारा, जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	—	—	अरुण कुमारी w/o स्व. राज बहादुर सिंह बुन्देला	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	अर्चना सिंह	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	दीमर हरदास तनय भुज्जा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	सुषमा राय	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	कुसुम सिंह घोष	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	मनोरमा जैन	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सुषमा जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	ज्योति जैन	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	राजेन्द्र लोधी	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	रामदास खंगार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	असाठी पंचमलाल उर्फ पंचू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	स्माईल खाँ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	गिरजाबाई अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	विजय कुमार राय	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	कुसुम बाई अहिरवार	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	देवी कुशवाहा	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(दीपक सक्सेना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.